

4 लाख 41 हजार 500 की सहायता-

जरूरतमंदों को भोजना मिल सके इसके लिए जिला प्रशासन की पहल पर झुंझुनू के मॉईनिंग ऑफिसर प्रमोद कुमार बलौदा ने विभिन्न लोगों से 4 लाख 41 हजार 500 रुपये का सहयोग अमृता सुधा सोसायटी में दिलवाया है। बलौदा ने बताया कि इसमें चिड़ावा के विशाल मित्तल ने 25 हजार, माखर के मदन लाल गुप्ता ने 25 हजार, जवाहर नगर के अंकित कुमार मित्तल ने 12500, जयपुर की वीआईएस इनफरा सोलेशन ने 50 हजार, सिंघाना के सुरेश कुमार गुप्ता ने 10 हजार, खेतडी की हिसार लॉगैस्टिक ने 50 हजार, खेतडी संजय नगर के संजय कुमार धारीवाल ने 20 हजार, संजय नगर की श्री स्टोरन क्रेसर ने 20 हजार, बनवास के प्रमोद कुमार बलौदा (मॉईनिंग अधिकारी) ने 21 हजार, प्रतिभा नगर के पारस माईन्स एवं मिनरल्स ने 50 हजार, झुंझुनू शहर के नरेन्द्र वर्मा ने 21 हजार, सुरेन्द्र निर्मल ने 21 हजार, रमेश कुमार सैनी ने 55 हजार, जयपुर की श्री श्याम एसोसियेट ने 50 हजार, खतेहपुरा के मनोहरलाल गावडिया ने 21 हजार, ओजटू की वीर कंस्ट्रक्शन कम्पनी ने 11 हजार की सहयोग राशि दी है। इसके अतिरिक्त भी जिले भर से राजकीय अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक संगठन, भामाशाहों ने भी यथा संभव धन राशि भेंट की है।

अतिरिक्त अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार तेतरवाल ने बताया कि जिले की शिक्षण संस्थाएं भी इस संकट की घड़ी में जिला प्रशासन के साथ हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को नोबल एज्यूकेशन ग्रुप देवलवास की ओर से 1 लाख 25 हजार रुपये, आदर्श पब्लिक स्कूल बाकरा की ओर से 11 हजार रुपये, विवेकानंद पब्लिक स्कूल कालीपहाड़ी की ओर से 11 हजार रुपये, कृष्णा पब्लिक स्कूल डूमोली की ओर से 11 हजार रुपये, गंगा विधा पीठ महनसर की ओर से 5 हजार रुपये की सहायता दी गई है।

वहीं राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र फौजी एवं जय प्रकाश शर्मा ने बताया कि समस्त मंत्रालयिक कर्मचारियों का माह मार्च के देय वेतन में से एक दिवस के वेतन को मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करवाया जाएगा।

.....